

# Deu

## Chapter 26

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
וְהָיָה אִלֹּהִים לְךָ וְיָרַשְׁתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְיָרַשְׁתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְיָרַשְׁתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם  
विरासत-में तेरे-लिए दे-रहा-है एलोहीम-तेरा यहोवा जो देश को- आया यदि- और-होगा  
H5159 H5414 H0430 H3068 H0776 H0413 H0935 H1961

וְיָרַשְׁתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְיָרַשְׁתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְיָרַשְׁתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם  
उसमें और-बसेगा और-अधिकार-में-लेगा-उसे  
H3427 H3423

“तुम शीघ्र ही उस देश में प्रवेश करोगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिये दे रहा है। जब तुम वहाँ अपने घर बना लो

2  
וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם  
एलोहीम-तेरा यहोवा जो देश-तेरे-से लाया जो भूमि-के फल सब- पहले-फलों-से और-लेगा  
H0430 H3068 H0776 H0935 H0127 H6529 H3605 H7225 H3947

וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
एलोहीम-तेरा यहोवा चुनेगा जो स्थान को- और-जाएगा टोकरी-में और-रखेगा तेरे-लिए दे-रहा-है  
H0430 H3068 H0977 H4725 H0413 H1980 H2935 H5414

וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְלָקַחְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
वहाँ नाम-उसका रखने-को  
H8033 H8034 H7931

तब तुम्हें अपनी थोड़ी सी प्रथम फसल लेनी चाहिए और उसे एक टोकरी में रखना चाहिये। वह प्रथम फसल होगी जिसे तुम उस देश से पाओगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। थोड़ी प्रथम फसल वाली टोकरी को लो और उस स्थान पर जाओ जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर चुनेगा।

3  
וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
आज घोषणा-किया उससे और-कहेगा उन दिनों-में होगा जो याजक को- और-आएगा  
H3117 H5046 H0413 H0559 H1992 H3117 H1961 H3548 H0413 H0935

וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
दने-को पुरखों-हमार-को यहोवा-ने शपथ-खाई जो देश को- आया कि- एलोहीम-तेरे यहोवा-को  
H5414 H0001 H3068 H7650 H0776 H0413 H0935 H0430 H3068

וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
हमें

उस समय सेवा करने वाले याजक के पास तुम जाओगे। तुम्हें उससे कहना चाहिए, ‘आज मैं यहोवा अपने परमेश्वर के सामने यह घोषित करता हूँ कि हम उस देश में आ गए हैं जिसे यहोवा ने हम लोगों को देने के लिये हमारे पूर्वजों को वचन दिया था।’

4  
וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וּבָאתָ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
एलोहीम-तेरे यहोवा-के वेदी सामने और-रखेगा-उसे हाथ-तेरे-से टोकरी याजक और-लेगा  
H0430 H3068 H4196 H6440 H3240 H3027 H2935 H3548 H3947

“तब याजक टोकरी को तुम्हारे हाथ से लेगा। वह इसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की वेदी के सामने रखेगा।

5  
וְעָבַדְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְעָבַדְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְעָבַדְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
और-गया पिता-मेरा नष्ट-होता-हुआ अरामी एलोहीम-तेरे यहोवा-के सामने और-कहेगा और-उत्तर-देगा  
H3381 H0001 H0006 H0761 H0430 H3068 H6440 H0559

וְעָבַדְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְעָבַדְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם וְעָבַדְתָּ אֶתְּחִינֵי אֶרֶץ מִצְרָयִם  
और-बहुत शक्तिशाली बड़ी जाति-को वहाँ और-हुआ-थोड़े पुरुषों-में वहाँ और-रहा मिस्रायम-को  
H6099 H8033 H1961 H4592 H4962 H8033 H4714

तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के सामने यह कहोगे: मेरा पूर्वज घुमक्कड़ अरामी था। वह मिस्र पहुँचा और वहाँ रहा। जब वह वहाँ गया तब उसके परिवार में बहुत कम लोग थे। किन्तु मिस्र में वह एक शक्तिशाली बहुत से व्यक्तियों वाला महान राष्ट्र बन गया।

וַיְרָעוּ אֶתְנוּ וַיִּבְרְאוּ אֶתְנוּ מִמִּצְרַיִם	וַיִּעֲנוּנוּ אֶתְנוּ וַיִּתְּנוּ אֶתְנוּ עַל־יְדֵינוּ	עָבַדְתָּ קָשָׁה:
और-बुरा-किया हमें	और-दुख-दिया-हमें और-दिया और-पर हम-पर	कठिन काम
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4713</a>	<a href="#">H7186</a>

मिस्रियों ने हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया।

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-दुहाई और-को-और-दुहाई	एलोहीम यहोवा को-यहोवा-ने और-सुना पुरखों-हमारे-के एलोहीम यहोवा को-यहोवा-ने और-सुना पुरखों-हमारे-के	आवाज़-हमारी को-यहोवा-ने और-सुना पुरखों-हमारे-के
<a href="#">H6817</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-को-दुख-हमारा और-को-परिश्रम-हमारा और-को-संकट-हमारा	और-को-दुख-हमारा और-को-परिश्रम-हमारा और-को-संकट-हमारा	और-को-दुख-हमारा और-को-परिश्रम-हमारा और-को-संकट-हमारा
<a href="#">H6040</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3906</a>

तब हम लोगों ने यहोवा अपने पूर्वजों के परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके बारे में शिकायत की। यहोवा ने हमारी सुनी उसने हम लोगों की परेशानियाँ, हमारे कठोर कार्य और कष्ट देखे।

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-निकाला-हमें और-चिह्नो-से और-चमत्कारों-से	और-निकाला-हमें और-चिह्नो-से और-चमत्कारों-से	और-निकाला-हमें और-चिह्नो-से और-चमत्कारों-से
<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5186</a>

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-चमत्कारों-से और-चिह्नो-से	और-चमत्कारों-से और-चिह्नो-से
<a href="#">H4159</a>	<a href="#">H0226</a>

तब यहोवा हम लोगों को अपनी प्रबल शक्ति और दृढ़ता से मिस्र से बाहर लाया। उसने महान चमत्कारों और आश्चर्यों का उपयोग किया। उसने भंयकर घटनाएँ घटित होने दीं।

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-लाया-हमें और-लाया-हमें	और-लाया-हमें और-लाया-हमें	और-लाया-हमें और-लाया-हमें
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2461</a>

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-शहद और-शहद	और-शहद और-शहद
<a href="#">H1706</a>	<a href="#">H1706</a>

इस प्रकार वह हम लोगों को इस स्थान पर लाया। उसने अच्छी चीजों से भरा—पूरा देश हमें दिया।

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-रखा-उसे और-रखा-उसे	और-रखा-उसे और-रखा-उसे	और-रखा-उसे और-रखा-उसे
<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0127</a>

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹलֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-दण्डवत-करेगा और-दण्डवत-करेगा	और-दण्डवत-करेगा और-दण्डवत-करेगा	और-दण्डवत-करेगा और-दण्डवत-करेगा
<a href="#">H7812</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H6440</a>

यहोवा, अब मैं उस देश की प्रथम फसल तेरे पास लाया हूँ जिसे तूने हमें दिया है। “तब तुम्हें फसल को यहोवा अपने परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और तुम्हें उसकी उपासना करनी चाहिए।

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-घर-तेरे-को और-घर-तेरे-को	और-घर-तेरे-को और-घर-तेरे-को	और-घर-तेरे-को और-घर-तेरे-को
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ	וַיִּבְרָא אֱלֹהִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַיִּשְׁמַע אֶת־קוֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת־אֶת־עַמְּלֵנוּ
और-लेवी और-लेवी	और-लेवी और-लेवी
<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H1616</a>

तब तुम उन सभी चीजों का आनन्द से उपभोग कर सकते हो जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया है। लेवीवंशी और वे विदेशी जो तुम्हारे बीच रहते हैं तुम्हारे साथ इन चीजों का आनन्द ले सकते हैं।

כִּי תִכְלֶה לָעֶשֶׂר אֶת-כָּל-מַעֲשֵׂר תְּבוּאַתְךָ בְּשָׁנָה הַשְּׁלִישִׁת שָׁנָה  
 जब समाप्त-करेगा दशवांश-देने-को सब-को-दशवांश-उपज-तेरी-का वर्ष-में तीसरे वर्ष

H8141 H7992 H8141 H8393 H4643 H3605 H0853 H6237 H3615

וְנָתַתָּה לְלֵוִי לְגֵר לְיָתוֹם וְלְאִלְמָנָה וְאָכְלוּ בְּשַׁעְרֵיךָ וְשָׂבְעוּ:  
 और-देगा और-परदेशी-को अनाथ-को और-विधवा-को और-खाएंगे और-तृप्त-होंगे

H7646 H8179 H0398 H0490 H3490 H1616 H3881 H5414 H4643

“जब तुम सारा दशमांश जो तीसरे वर्ष (दशमांश का वर्ष) तुम्हारी फ़सल का दिया जाना है, दे चुको तब तुम्हें लेवीवंशियों, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं को इसे देना चाहिए। तब हर एक नगर में वे खा सकते हैं और सन्तुष्ट किये जा सकते हैं।

וְאָמַרְתָּ לְפָנָיו יְהוָה אֱלֹהֵינוּ בְּעָרְתֵנוּ הַקֹּדֶשׁ מִן-הַבַּיִת וְגַם נָתַתָּיו לְלֵוִי  
 और-कहेगा और-सामने यहोवा-के एलोहीम-तेरे निकाला पवित्र-वस्तु से-घर और-भी दिया-उसे लेवी-को

H3881 H5414 H1571 H6944 H0430 H3068 H6440 H0559

וְלֹגֵר וְיָתוֹם וְלְאִלְמָנָה כְּכֹל-מִצְוַתְךָ אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי לֹא-עֲבַרְתִּי  
 और-परदेशी-को अनाथ-को और-विधवा-को सब-के-अनुसार-आज्ञा-तेरी मंत्रोक्त-जो आज्ञा-दी-मुझे नहीं-उल्लंघन-किया

H3808 H6680 H4687 H3605 H0490 H3490 H1616

וְלֹא שָׁכַחְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ  
 और-नहीं भूला आज्ञाओं-तेरी-से

H7911 H3808 H4687

तुम यहोवा अपने परमेश्वर से कहोगे, ‘मैंने अपने घर से अपनी फसल का पवित्र भाग दशमांश बाहर निकाल दिया है। मैंने इसे उन सभी लेवीवंशियों, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने उन सभी आदेशों का पालन करने से इन्कार नहीं किया है। मैं उन्हें भूला नहीं हूँ।

לֹא-אָכַלְתִּי בְּאֵזְנוֹ מִמֶּנּוּ וְלֹא-בְּעָרְתֵנוּ מִמֶּנּוּ נָתַתִּי וְלֹא-אָכַלְתִּי מִמֶּנּוּ  
 नहीं-खाया और-मेरे-में शोक-मेरे-में और-नहीं-निकाला उसमें-से उसमें-से दिया और-नहीं-आज्ञा-दी-मुझे

H5414 H3808 H2931 H3808 H0205 H0398 H3808

לָמַת מְטוֹתַי שְׂמֹעַתִּי בְּקוֹלֵי יְהוָה אֱלֹהֵינוּ עָשִׂיתִי כְּכֹל-אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי  
 मृतों-को सुना आवाज़-की यहोवा-की एलोहीम-मेरे किया सब-के-अनुसार जो आज्ञा-दी-मुझे

H6680 H3605 H0430 H3068 H8085 H4191

मैंने यह भोजन तब नहीं किया जब मैं शोक मना रहा था। मैंने इस अन्न को तब अलग नहीं किया जब मैं अपवित्र था। मैंने इस अन्न में से कोई भाग मरे व्यक्ति के लिये नहीं दिया है। मैंने यहोवा, मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं का पालन किया है। मैंने वह सब कुछ किया है जिसके लिये तूने आदेश दिया है।

הַשְּׂקִיפָה מִמִּעוֹן קֹדֶשְׁךָ מִן-הַשָּׁמַיִם וּבְרַחֵם אֶת-עַמְּךָ אֶת-יִשְׂרָאֵל וְאֶת-זְאֵנָה  
 झाँकना निवास-से पवित्र-तेरे आकाश से-और-आशीष-दे और-आशीष-दे और-को-इस्राएल को-जन-तेरी को-और-को

H0853 H3478 H0853 H0853 H1288 H8064 H6944 H4583 H8259

הָאָדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָנוּ בְּשָׂבַעְתָּ לָאֲבֹתֵינוּ אֶרֶץ זָבָב וְדַבָּשׁ:  
 भूमि जो दिया हमें जैसा शपथ-खाई शपथ-खाई पुरखों-हमारे-को देश लंबी-हुई दूध और-शहद

H1706 H2461 H2100 H0776 H0001 H7650 H5414 H0127

ס

ס

तू अपने पवित्र आवास स्वर्ग से नीचे निगाह डाल और अपने लोगों, इस्राएलियों को आशीर्वाद दे और तू उस देश को आशीर्वाद दे जिसे तूने हम लोगों को वैसा ही दिया है जैसा तूने हमारे पूर्वजों को अच्छी चीज़ों से भरा—पूरा देश देने का वचन दिया था।

הַיּוֹם הַזֶּה הַיְהוָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מִצְוָתָהּ לְעֲשׂוֹת אֶת-הַחֲקִים הָאֵלֶּה וְאֶת-הַחֲקִים  
 दिन यह यहोवा एलोहीम-तेरा आज्ञा-दे-रहा-है-तुझे करने-को को-विधियों ये और-को-

H0853 H0428 H2706 H0853 H6680 H0430 H3068 H2088 H3117

הַמְשַׁפְּטִים וְשָׂמַרְתָּ וְעָשִׂיתָ אוֹתָם כְּכֹל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ:  
 न्यायों और-रखेगा और-करेगा उन्हें सब-से-हृदय-तेरे और-सब-से-प्राण-तेरी

H5315 H3605 H3824 H3605 H0853 H8104 H4941

“आज यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमको आदेश देता है कि तुम इन सभी विधियों और नियमों का पालन करो। अपने पूरे हृदय और अपनी पूरी आत्मा से इनका पालन करने के लिये सावधान रहो।

17 אֶת־יְהוָה הָאֱמֻנָה הַיּוֹם לְהוֹיֹת לְךָ לְאֱלֹהִים וּלְלַכֵּת בְּדַרְכָיו וּלְשַׁמֵּר  
 और-रखने-को मागों-उसके-में और-चलने-को एलोहीम-को तेरे-लिए होने-को आज घोषणा-किया यहोवा को-  
[H8104](#) [H1870](#) [H3212](#) [H0430](#) [H1961](#) [H3117](#) [H0559](#) [H3068](#) [H0853](#)

וּמִצִּוֹתָיו וּמִצִּוֹתָיו וּמִצִּוֹתָיו וּמִצִּוֹתָיו וּמִצִּוֹתָיו  
 और-आज्ञाओं-उसकी और-न्यायों-उसके और-सुनने-को और-उसकी-को  
[H8085](#) [H4941](#) [H4687](#) [H2706](#)

आज तुमने यह कहा है कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। तुम लोगों ने वचन दिया है तुम उसके मार्ग पर चलोगे, उसके उपदेशों को मानोगे, और उसके नियमों और आदेशों को मानोगे। तुमने कहा है कि तुम वह सब कुछ करोगे जिसे करने के लिये वह कहता है।

18 וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה וַיְהוָה  
 और-रखने-को तुझसे कहा-जैसा खास जन-को उसे होने-को आज घोषणा-किया-तुझे और-यहोवा-ने  
[H8104](#) [H1696](#) [H5459](#) [H1961](#) [H3117](#) [H0559](#) [H3068](#)

כָּל־מִצְוֹתָיו :  
 आज्ञाओं-उसकी सब-  
[H4687](#) [H3605](#)

आज यहोवा ने तुम्हें अपने लोग चुन लिया और अपना मूल्यवान आश्रय प्रदान करने का वचन भी दिया है। यहोवा ने यह कहा है कि तुम्हें उसके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए।

19 וְלִתְפָאֵרֶת וְלִשְׁמֵם לְתִהְיֶה עֲשֵׂה אֲשֶׁר הַגּוֹיִם כָּל־עַל עֲלִיוֹן וּלְתִתֵּן  
 और-शोभा-को और-नाम-को स्तुति-को बनाया जो जातियों सब-उपर उच्च और-रखने-को-तुझे  
[H8597](#) [H8034](#) [H8416](#) [H3605](#) [H5414](#)

וּלְהוֹיֹתָ עִם־קָדְשׁ לְיְהוָה אֱלֹהֵיךָ כַּאֲשֶׁר דָּבַר :  
 और-होने-को-तुझे और-होने-को-तुझे यहोवा-की पवित्र जन-जैसा एलोहीम-तेरे  
[H1696](#) [H0430](#) [H3068](#) [H6918](#) [H1961](#)

यहोवा तुम्हें उन सभी राष्ट्रों से महान बनाएगा जिन्हें उसने बनाया है। वह तुमको प्रशंसा, यश और गौरव देगा और तुम उसके विशेष लोग होगे, जैसा उसने वचन दिया है।”